

February 04, 2023

IGAL/SECT/02-23/09

To National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C - 1, Block G Bandra Kurla Complex Bandra - (E) Mumbai - 400 051 To
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai - 400 001

Symbol: INDIGO Scrip Code: 539448

Sub: Disclosure under Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "SEBI LODR Regulations") – Copies of newspaper advertisement of unaudited financial results for the guarter and nine months ended December 31, 2022

Dear Sir / Madam,

In compliance with Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI LODR Regulations, please find enclosed the copies of newspaper advertisements relating to unaudited standalone financial results and consolidated financial results of the Company for the quarter and nine months ended December 31, 2022, published in Financial Express (English) - all editions and Jansatta (Hindi) - Delhi edition on February 04, 2023.

This is for your information and record.

Thanking you,

For InterGlobe Aviation Limited

Sanjay Gupta
Company Secretary and Chief Compliance Officer



अमृत महोत्सव





DELHI JAL BOARD

OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (M)-2 2142, JANTA FLATS, GTB ENCLAVE, NAND NAGARI, DELHI-93

भाजादी 🚾 अमृत महोत्सव

02:30 P.M

PRESS NIT NO. 40 (2022-23) Last date / time of receip of tender through (in Rs.) Rs.) eprocurement solution 54,000.00 500.00 Engagement of Sewer Gang Beldars for sewer 17.02.2023 maintenance on contract basis in Ward No. 246, 247

All the terms and conditions including technical specification and special conditions is available on Delhi Govt. Website https://delhi.govtprocurement.com. Sd/- (V. K. Chauhan)

ISSUED BY P.R.O. (WATER) Advt. No. J.S.V. 472 (2022-23)

and 248 in Karawal Nagar AC-70

Tender ID No. 2023_DJB_235962_1

"STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene".

EX. ENGINEER (T)-2/ M-2

MIRAE ASSE Mutual Fund

NOTICE NO: AB/06/2023

Beclaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal under Mirae Asset Emerging Bluechip Fund ("The Scheme"):

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Byt. Ltd., Trustees to Mirae Asset Mutual Fund ("MAME") have approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under Mirae Asset Emerging Bluechip Fund (An open-ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks) as under:

Scheme / Plan / Option	Quantum* (* per unit)	NAV as on February 02, 2023 (* per unit)	Record Bate	Face Value (* per unit)	
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund - Regular Plan - Income Distribution cum capital withdrawal option:	3:59	49:292	February 07,	10	
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund - Birect Blan - Income Distribution cum capital withdrawal option:	istribution cum 6.00 67.636		February 07, 2023	10	

* subject to availability of distributable surplus as on the record date and as reduced by applicable statutory levy, if any.

Pursuant to the payment of IBEW, the NAV of the IBEW option of the above-mentioned Plans of the Scheme will fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable).

Income distribution will be paid to those unitholders / beneficial owners whose names appear in the register of unit holders maintained by the Mutual Fund / statement of beneficial ownership maintained by the depositories, as applicable, under the IBCW option of the aforesaid plan as on the record date

> For and on behalf of the Board of Directors of MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD: (Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Pate: February 03, 2023

AUTHORISED SIGNATORY MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India)

Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324625) Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098. ■ 1800 2090 777 (Toll free),

□ customercare@miraeasset.com
□ www.miraeassetmf.co.in

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully:

This advertisement cum corrigendum is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document, All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated January 18, 2023 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE") and with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBIICDR Regulations").



FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED

Corporate Identification Number: L93000MH1994PLC080842

Registered Office: Plot A-357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane (West) - 400604, Maharashtra, India. Tel: +91 022-4184 2201; E-mail: csscandent@gmail.com; Website: www.scandent.in;

Contact Person: Pandoo Naig, Managing Director | OUR PROMOTER: Gautam Deshpande NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS# OF FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED (THE "COMPANY")

RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED LAST DATE FOR RECEIPT OF RIGHTS ISSUE APPLICATION FORMS IS EXTENDED UPTO

TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023*

Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date *# Our Rights Issue committee vide its meeting held on February 03, 2023 has extended the Issue period to Tuesday, February 21,

2023. The said extension period as stated above is within the applicable regulations prescribed in this regard in terms of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and Companies Act 2013. ISSUE OF UPTO 4,07,67,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 12/- EACH INCLUDING SECURITIES PREMIUM OF ₹ 2/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹4892.04 LAKHS* ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 127 RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY 100 FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS

ON TUESDAY, JANUARY 03, 2023 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS ₹ 12 WHICH IS: 1.2 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 174 OF THE LETTER OF OFFER *Assuming Full subscription

Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it!!! issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section

Process of making an Application in the Issue

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process, who are holding the equity shares of our Company as on the record date i.e. Tuesday, January 03, 2023. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details, please see "Process of Making An Application In The Issue" on page 176 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date i.e.; Tuesday, February 21, 2023 to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in the stipulated time then their rights entitlement shall lapse and shall not be eligible to apply in this issue.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE NEW ISSUE CLOSURE DATE AS FEBRUARY 21, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO LETTER AND APPLICATION FORM, EXCEPT OF MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE; RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIME TABLE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.

The Letter of Offer shall be read in conjunction with this Corrigendum and the Letter of Offer stands suitably modified to the extent of information set out above. The information in this Corrigendum supersedes the information in the Letter of Offer to the extent inconsistent with the information in the Letter of Offer.

All capitalised terms used in this Corrigendum shall unless the context otherwise requires, have the same meanings as ascribed in the Letter of Offer.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

COMPANY
Family Care
HOSPITALS
EAMILY CADE HOSDITALS LIMITED

AMILY CARE HOSPITALS LIMITED

Plot A-357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane (West) - 400604. Maharashtra, India. Telephone: +91 022-4184 2201 E-mail: csscandent@gmail.com Website: www.scandent.in Contact Person : Pandoo Naig

Date: February 03, 2023

financialexp.epapr.in

Place: Mumbai

FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED | PURVA SHAREGISTRY (INDIA) 3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (E), Mumbai - 400 057, Maharashtra, India Tel No.: +91 81049 85249 E-mail: mb@fedsec.in Website: www.fedsec.in Contact Person: Radhika Maheshwari SEBI Registration Number: INM000010163

REGISTRAR TO THE ISSUE

PRIVATE LIMITED 9, Shiv Shakti Industrial Estate,


J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai - 400011, Maharashtra, India. Tel No: +91-22-2301 2518/6761;

Fax No: NA Email: support@purvashare.com; Contact Person: Deepali Dhuri; Investor Grievance E-Mail: mb@fedsec.in Website: www.purvashare.com SEBI Registration Number: INR000001112

The Letter of Offer shall be available on website of SEBI at www.sebi.gov.in; the website of BSE at www.bseindia.com; website of the Company at www.scandent.in and the website of the Lead Manager www.fedsec.in. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States. Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company for any pre-Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the application form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the investor.

> For Family Care Hospitals Limited On behalf of Board of Directors

Pandoo Naig Managing Director





2142 JANTA FLATS, G.T.B. ENCLAVE DELHI-110093 PRESS NIT NO 69 (2022-23) Name of Work Amount put Date of release of

Last date / time of receip No. tender in Eto tender of Tender through **Procurement solution E- Procurement Solution** 1 Engagement of 10 nos unskilled workers for one 03.02.2023 14.02.2023 year on contract basis for maintenance of sewerage 2023_DJB_235983_1 2:10 PM system of Rohtash Nagar Constituency AC-64 under

Sd/- (V. K. Chauhan) EX. ENGINEER (T)-2 "Stop Corona; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

Further details in this regards can be seen at https://delhi.govtprocurement.com **ISSUED BY P.R.O. (WATER)** Advt. No. J.S.V. 475 (2022-23)

AARTI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off.: Plot Nos.801, 801/23, Phase -III, G.I.D.C. Estate, Vapi-396195, Dist. Valsad, Gujarat Corp. Off.: 71, Udyog Kshetra, 2nd Floor, Mulund-Goregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai- 400 080 Website: www.aarti-industries.com; Email: investorrelations@aarti-industries.com; CIN: L24110GJ1984PLC007301

IDITED EINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2022

No. Particulars Quarter ended 9 Months Ended Year ended Quarter ended 9 Months Ended 31-Dec-22 31-Dec			olidated	Consc					dalone	Star				Sr.
Total Income from Operations (Net) 1,63,498 1,68,592 2,05,542 4,92,618 4,62,620 6,04,087 1,66,796 1,68,503 2,07,625 4,96,365 4,64,52														
2 Net Profit /(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 15,923 15,159 80,860 47,767 1,19,424 1,36,580 15,989 15,041 80,907 47,591 1,19,593 15,159 80,860 47,767 1,19,424 1,36,580 15,989 15,041 80,907 47,591 1,19,593 15,159 80,860 47,767 1,19,424 1,36,580 15,989 15,041 80,907 47,591 1,19,593 15,159 80,860 47,767 1,19,424 1,36,580 15,989 15,041 80,907 47,591 1,19,593 15,159 80,860 47,767 1,19,424 1,36,580 15,989 15,041 80,907 47,591 1,19,593 15,159 80,860 47,767 1,19,424 1,36,580 15,989 15,041 80,907 47,591 1,19,593 15,193 15														
Exceptional and/or Extraordinary items) 15,923 15,159 80,860 47,767 1,19,424 1,36,580 15,989 15,041 80,907 47,591 1,19,53	,943 6,08,6	4,64,943	4,96,365	2,07,625	1,68,503	1,66,796	6,04,087	4,62,620	4,92,618	2,05,542	1,68,592	1,63,498	Total Income from Operations (Net)	1
3 Net Profit /(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 15,923 15,159 80,860 47,767 1,19,424 1,36,580 15,989 15,041 80,907 47,591 1,19,584 Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 13,523 12,559 72,460 39,767 1,03,749 1,18,205 13,653 12,448 72,530 39,655 1,04,05			-	3 8	8			- 8	= 8	7			Net Profit /(Loss) for the period (before Tax,	2
4 Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 13,523 12,559 72,460 39,767 1,03,749 1,18,205 13,653 12,448 72,530 39,655 1,04,0 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 13,284 11,172 74,329 36,090 1,05,487 1,20,000 12,807 11,061 74,145 35,371 1,05,6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5/- each) 18,125	9,957 1,37,2	1,19,957	47,591	80,907	15,041	15,989	1,36,580	1,19,424	47,767	80,860	15,159	15,923	Exceptional and/or Extraordinary items)	
4 Net Profit /(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) 13,523 12,559 72,460 39,767 1,03,749 1,18,205 13,653 12,448 72,530 39,655 1,04,0 5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 13,284 11,172 74,329 36,090 1,05,487 1,20,000 12,807 11,061 74,145 35,371 1,05,6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5/- each) 18,125			-	3				- 8	3 8				Net Profit /(Loss) for the period before Tax	3
(after Exceptional and/or Extraordinary items) 13,523 12,559 72,460 39,767 1,03,749 1,18,205 13,653 12,448 72,530 39,655 1,04,0 5 Total Comprehensive Income (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 13,284 11,172 74,329 36,090 1,05,487 1,20,000 12,807 11,061 74,145 35,371 1,05,6 6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5/- each) 18,125	9,957 1,37,2	1,19,957	47,591	80,907	15,041	15,989	1,36,580	1,19,424	47,767	80,860	15,159	15,923	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]				S 4		-		- 9	= 18	-		-	Net Profit /(Loss) for the period after Tax	4
[Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5/- each) Reserves (excluding Revaluation Reserve) Net Worth Reserves (of ₹ 5/- each) Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax	1,017 1,18,5	1,04,017	39,655	72,530	12,448	13,653	1,18,205	1,03,749	39,767	72,460	12,559	13,523	(after Exceptional and/or Extraordinary items)	
(after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] 13,284 11,172 74,329 36,090 1,05,487 1,20,000 12,807 11,061 74,145 35,371 1,05,60 6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5/- each) 18,125 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>9 9</td><td></td><td></td><td>-</td><td>Total Comprehensive Income for the period</td><td>5</td></t<>				-		-		-	9 9			-	Total Comprehensive Income for the period	5
(after tax)]													[Comprising Profit / (Loss) for the period	
6 Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5/- each) 18,125													(after tax) and Other Comprehensive Income	
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)	5,603 1,20,0	1,05,603	35,371	74,145	11,061	12,807	1,20,000	1,05,487	36,090	74,329	11,172	13,284	(after tax)]	
7 Reserves (excluding Revaluation Reserve)			-					-	- 12		-	-	Paid-up Equity Share Capital	6
8 Net Worth 9 Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) (for continuing and discontinued operations)	3,125 18,1	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	(Face Value of ₹ 5/- each)	
9 Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) (for continuing and discontinued operations)	- 4,33,4			2	-	-	4,31,979		- 2	-	-	-	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	7
	- 4,51,6		-	-	-	-	4,50,104	-	-	-	-	-	Net Worth	8
(for continuing and discontinued operations)	-		-	0 0	-				= 6		-	-	Earnings Per Share (of ₹ 5/- each)	9
														- 1
	28.69 32.	28.69	10.94	20.01	3.43	3.77	32.61	28.62	10.97	19.99	3.46	3.73	, , ,	- 1
2. Diluted: 3.73 3.46 19.99 10.97 28.62 32.61 3.77 3.43 20.01 10.94 28									l 1					- 1

1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchange(s) viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company i.e. www.aarti-industries.com

> For AARTI INDUSTRIES LIMITED **RAJENDRA V. GOGRI CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR**

INTERGLOBE AVIATION LIMITED

CIN: L62100DL2004PLC129768

Registered Office: Upper Ground Floor, Thapar House, Gate No. 2, Western Wing, 124 Janpath, New Delhi - 110001, India Tel: +91 96500 98905; Fax: +91 11 4351 3200

E-mail: investors@goindigo.in; Website: www.goindigo.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS AND Unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 december 2022

(Rupees in millions, except for share data and if otherwise stated) Consolidated

S.No.	Particulars	Consolidated								
			Quarter ended	J	Nine Mon	Nine Months ended				
		31 December 2022	30 September 2022	31 December 2021	31 December 2022	31 December 2021	31 March 2022			
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Revenue from Operations	149,329.70	124,975.87	92,947.69	402,858.51	179,101.80	259,309.27			
2	Total Income	154,102.01	128,522.86	94,800.78	412,812.94	184,490.63	266,565.25			
3	Profit/ (Loss) for the period (before Tax and/or Exceptional items)	14,233.10	(15,832.81)	1,336.62	(12,242.14)	(44,761.73)	(61,536.84)			
4	Profit' (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	14,233.10	(15,832.81)	1,336.62	(12,242.14)	(44,761.73)	(61,536.84)			
5	Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	14,226.04	(15,833.34)	1,297.88	(12,249.91)	(44,800.47)	(61,618.45)			
6	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	14,199.60	(15,802.02)	1,306.55	(12,167.53)	(44,812.73)	(61,607.80)			
7	Equity share capital (face value of Rs. 10 each, fully paid)	3,854.75	3,854.35	3,851.91	3,854.75	3,851.91	3,852.55			
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet						(63,733.17)			
9	Carnings Per Share (of Rs. 10/- each) (i) Basic (Rs.) (ii) Diluted (Rs.)	36.91 36.86	(41.09) (41.09)		(31.79) (31.79)	(116.35) (116.35)	(160.01) (160.01)			

The information on unaudited standalone financial results are given below:

(Rupees in millions, except for share data and if otherwise stated)

S.No.	Particulars		Standalone								
			Quarter ended	lj.	Nine Mon	Year ended					
		31 December 2022	30 September 2022	31 December 2021	31 December 2022	31 December 2021	31 March 2022				
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)				
1	Revenue from Operations	149,329.70	124,975.87	92,947.69	402,858.51	179,101.80	259,309.27				
2	Total Income	154,087.04	128,515.58	94,798.76	412,789.16	184,482.94	266,554.69				
3	Profit/ (Loss) for the period (before Tax and/or Exceptional items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)				
4	Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)				
5	Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)				
6	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	14,160.97	(15,823.08)	1,292.59	(12,236.11)	(44,920.70)	(61,680.60)				
7	Equity share capital (face value of Rs. 10 each, fully paid)	3,854.75	3,854.35	3,851.91	3,854.75	3,851.91	3,852.55				
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet						(64,205.47)				
9	Carnings Per Share (of Rs. 10/- each) (i) Basic (Rs.) (ii) Diluted (Rs.)	36.79 36.74	(41.14) (41.14)	3.33 3.33	(31.99) (31.99)	(116.64) (116.64)	(160.25) (160.25)				

Notes:

Place: Mumbai

Date: February 3, 2023

- 1. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results and unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "SEBI LODR Regulations"). The full format of the unaudited consolidated financial results and unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022 is available on the website of the Company www.goindigo.in and also at the website of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com. The results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company and its subsidiary (namely "Agile Airport Services Private Limited") [the Company and its subsidiary together referred to as, "the Group") pursuant to Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations, who have issued an unmodified conclusion on the same.
- 2. The above results were reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 3 February 2023.
- 3. Earnings per share is not annualized for the quarter ended 31 December 2022, 30 September 2022 and 31 December 2021 and for the nine months ended 31 December 2022 and 31 December 2021.

For and on behalf of the Board of Directors of InterGlobe Aviation Limited

Place: Gurugram

Date: 3 February 2023

New Delhi

Rahul Bhatia Managing Director

पंजाब मैशनल बैंक मण्डल शस्त्रा, गाजियाबाद, केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद - 201001,

मोन : 8283810870, 9971720088, ई-मेलः cs8228@pnb.co.in शुद्धि पत्र

दिनांक 30.12.2022 को इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता सूचित किया जाता है कि शाखा कौशाम्बी, गाजियाबाद का खाता मैसर्स सोहो लि. की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 15.02.2023 को होनी प्रस्तावित है, हम इस खाते की सम्पत्तियों की ई-नीलामी को रद्द / निरस्त करते हैं। शेष खाते / विवरण पूर्वानुसार रहेंगी।

प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

केंद्र सरकार कंपनी रजिस्टार नई दिल्ली के समक्ष

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (३) और सीमित देयता भागीदारी निवम 2009 के नियम 17 के मामले में।

डिनमैन एंटरप्राइजेज एलएलपी जिसका पंजीकृत कार्यालय 552, 5वीं मंजिल प्लॉट नंबर ८, चंदनवारी अपार्टमेंट, द्वारका. सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075 के मामले में। एतददारा आम जनता को सचना दी जाती है कि एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्टार ऑफ कंपनीज, दिल्ली को एक याचिका देने का प्रस्ताव करती है, जिसमें वह अपने पंजीकृत कार्यालय को एनसीटी "दिल्ली" से बदल कर "महाराष्ट्र" राज्य में स्थानांतरण करने की अनुमति मांगेगी।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित इस एलएलपी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध का आधार व्यक्त करते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत ढाक हारा इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 21 (इक्कीस) दिनों के मीतर रजिस्टार ऑफ कंपनीज, दिल्ली को तथा उसकी एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी को उसके ऊपर लिखित पंजीकृत कार्यालय में भेज सकता है।

डिनमैन एंटरप्राइजेज एलएलपी

प्रीतेश रंजन दिनांक: 04.02.2023 मनोनीत भागीदार स्थान : दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक the name you can BANK upon! जोनल सास्त्रा सेंटर, प्रयम तल, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066, ई-मेल :- zs8343@pnb.co.in

प्रितिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ के नियम ८(१) के तहत 📗 (अचल सम्पत्ति के लिए)

कामा प्लेस, नई दिल्ली—110066 के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूननिर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन 26 (अधिनियम), 2002 के अधीन और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम ९ के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 15—10—2022 जारी की थी, जिसमें कर्जदार / गारंटरों / बंधकदाता **मैसर्स कॉस्मोस इन्फ्रा इंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा**. लि. (इसके निदेशकों / अधिकृत प्रतिनिधि / अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के माध्यम से) पता :- 4, बैटरी लेन, राजपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली–110054, अन्य पता :– सी–31 / 32, द्वितीय तल, पीवीआर प्लाजा के सामने, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली—110001, **2. श्री विनोद मित्तल,** (निदेशक / गारंटर) पुत्र श्री डी.डी. मित्तल निवासी ऋषि अपार्टमेंट्स, ४, बैटरी लेन, राजपुर रोड, सिविल लाइन्स दिल्ली–110054 से सूचना में वर्णित अनुसार बकाया राशि रू. 25,99,30,186.29/-(रूपए पच्चीस करोड़ निन्यानवे लाख तीस हजार एक सौ छियासी तथा पैसे उन्तीस मात्र) का भुगतान 30—09—2022 से आगे ब्याज, अनुषंगी खर्चीं, लागत, प्रभारों इत्यादि के साथ, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार / गारंटर / बंधकदाता राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतः कर्जदार तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 और 9 के साथ पठित उक्त 27 (अधिनियम) की धारा 13 (4) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा 30 जनवरी, 2023 को प्राप्त कर लिया है।

एतद्द्वारा, विशेष रूप से कर्जदार / गारंटरों / बंधकदाता को तथा सर्वसाधारण को इस सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार पंजाब नैशनल बैंक. जोनल सास्त्रा सेंटर, प्रथम तल, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066 की बकाया राशि रू. 25,99,30,186.29 /- (रूपए पच्चीस करोड निन्यानवे लाख तीस हजार एक सौ छियासी तथा पैसे उन्तीस मात्र) का भुगतान 30–09–2022 से ब्याज, अनुषंगी खर्चीं, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित करने के बाद ही किया जा

कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। अचल सम्पत्तियों का वर्णन

1. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सेक्टर—25 पार्ट—11, पानीपत (हरियाणा) में प्लॉट नंबर एसएम—3 एवं एसएम—4 पर मित्तल मेगा मार्ट के तृतीय तल का फ्रीहोल्ड साम्यिक बंधक, सूपर बिल्ट एरिया लगभग 29702 वर्ग फीट, जो मैसर्स कॉरमोस इन्फ्रा इंजीनियरिंग (इंडिया) प्रा. लि. के नाम है।

2. सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : बैटरी लेन, राजपुर रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली में स्थित सम्पत्ति सं. 04, अब ऋषि अपार्टमेंट्स के नाम से ज्ञात, पर निर्मित भूमि परिमाप 198.7 वर्ग मीटर पर ब्लॉक नंबर 6 जिसमें आवासीय फ्लैट नंबर 1, 3, 5 एवं बेसमेंट एवं टेरेस शामिल हैं, कवर्ड एरिया लगभग 8414 वर्ग फीट के पूरे आधा हिस्से का फ्रीहोल्ड साम्यिक बंधक, खुला क्षेत्र (लॉन) इस्तेमाल करने के स्थायी विशेष अधिकार के साथ, रेजर्व्ड कार पार्किंग में छह कार पार्किंग स्पेस और कॉमन प्रवेश, रोड़स, पाथस, पैसेजेज, स्टेयर-केसेज, पार्क्स, अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स, ट्यूब-वेल बिजली सब-स्टेशन्स इत्यादि के साझा स्वामित्व अधिकारों के साथ और सम्पूर्ण बिल्डिंग / कॉम्प्लेक्स, जो श्री विनोद मित्तल (एचयूएफ) के नाम पर है, के नीचे फ्रीहोल्ड भूमि में यथानुपात, अविभाजित और अविभाज्य अधिकारों के साथ।

दिनांक: 30.01.2023, प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक स्थान: नई दिल्ली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra par ultarr par das

बैंक ऑफ महाराष्ट्र गर्ग व्यापार केंद्र सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 11, रोहिणी, दिल्ली-110085, दूरभाषः 011-27572346, ईमेलः brmgr1238@mahabank.co.in

अमृत महोत्सव

नीचे उल्लिखित व्यक्तियों को एतद्दवारा सूचित किया जाता है कि वे ऋण खातों में देयता का भुगतान करने में विफल रहे हैं। उन्हें पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए नोटिस बैंक को बिना सुपुर्दगी वापस कर दिए गए हैं। इसलिए उनसे देयता और अन्य शुल्कों का भूगतान करने और 09.02.2023 (तारीख) को या उससे पहले गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों को भूनाने का अनुरोध किया जाता है, जिसमें विफल रहने पर उक्त प्रतिभूतियों को बैंक द्वारा सार्वजनिक नीलामी में उधारकर्ता की कीमत पर बैंक परिसर में अपराह्न 4.00 बजे दिनांक 10.02.2023 को या उसके बाद किसी अन्य सुविधाजनक तिथि पर बिना किसी सुचना के बैंक के पूर्ण विवेक पर बेच दिया जाएगा, सोने के आभूषणों की खरीद में रुचि रखने वाले पक्ष नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी सूचना

क्र. सं.	ऋण की तिथि	ऋण खाता संख्या	उधारकर्ता का नाम और पता	आरक्षित मूल्य
1.	17/07/2020	60404129190	राजेश चौहान पताः सी ४ ४३, सेक्टर ११, रोहिणी, दिल्ली ११० भारत, पिनः ११००८५	रु. 14,03,372/-
2.	31/12/2021	60404128969	राजेश चौहान पताः सी ४ ४३, सेक्टर ११, रोहिणी, दिल्ली ११० भारत, पिनः ११००८५	रु. 11,44,233/-

मुख्य प्रबंधकः बैंक ऑफ महाराष्ट्र रोहिणी सेक्टर 11, दिल्ली



दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय : सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनक पुरी, नई दिल्ली-110058दूरभाषः 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

ईमेलः legal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com, वेबसाइटः www.kangrabank.com (नियम 6(2) का प्रावधान देखें) चल संपत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत चल परिसंपत्ति के विक्रयार्थ ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतदद्वारा सर्वसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न वर्णित ऋणकर्ता तथा जमानतदारों को सूचित किया जाता है कि दी कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लि., प्रधान कार्यालय सी-29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, प्रतिभूत ऋणदाता के पास दृष्टिबंधककृत निम्न विवरणित चल संपत्ति, जिसका भौतिक अधिग्रहण दी कांगडा को-ऑपरेटिव बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है, उसका विक्रय "जैसी है जहां है" "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है" आधार पर किया जाएगा, जो यहां नीचे दिए गए संक्षिप्त विवरणों के अनुसार "ई—नीलामी द्वारा विक्रय (सरफॉएसि अधिनियम एवं नियमावली 2002 के अंतर्गत)" के माध्यम से किया जाएगा:-

क्र. सं.	ऋणकर्ता एवं जमानतदार का नाम तथा शाखा का नाम	(क) मांग सूचना की तिथि (ख) अधिग्रहण प्रकार/तिथि (ग) मांग राशि	दृष्टिबंधककृत वाहन के विवरण	आरक्षित मूल्य	(क) धरोहर राशि जमा (ख) बोली वृद्धि राशि (ग) निरीक्षण की तिथि एवं समय (घ) धराज एवं केवाईसी जमा की अंतिम तिथि/समय (ड.) ई-नीलामी की तिथि/समय
2.	श्री गुरमेल सिंह पुत्र श्री मनमोहन सिंह, सदस्यता सं. 21288 तथा सदस्यता खाता सं.: जीपी / 16 / 637 ऋण खाता सं.: 00058190012704 (ऋणकर्ता) श्री सरबजीत सिंह पुत्र श्री जरनैल सिंह (जमानतदार) गोविंदपुरी शाखा	(क) 18.01.2023 (ख) भौतिक अधिग्रहण / 19.01.2023 (ग) रु. 7,49,886 / — भावी ब्याज, दांडिक ब्याज एवं भुगतान की तिथि तक 31.12.2022 से समय—समय पर ऋण खाता के अंतर्गत लागू अनुसार अन्य शुल्क	एमेज 1.5 ईएमटी (।—डीटीईसी) का दृष्टिबंधन, पंजीकरण सं: डीएल—1जेडबी—1207, इंजन नंबर : एन15ए14012034, चेसिस नंबर : एमएकेडीएफ258बीएचएन203154, मॉडल एवं वर्ष : एमेज 1.5 ई एमटी (।—डीटीईसी) एवं 2017, रंग : टफेटा व्हाइट, ईंधन : डीजल, विनिर्माण : होंडा कार्स इंडिया लि.	रु. 3,10,000 / — (रुपये तीन लाख दस हजार मात्र)	(क) रु. 31,000 /— (ख) रु. 10,000 /— (ग) 16.02.2023 को 11.00 बजे से 4.00 बजे (घ) 07.03.2023 को 5.30 बजे तक (ड.) 09.03.2023 को 3.00 बजे

विस्तुत बोली / निविदा प्रपत्र, उक्त विक्रय के नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया दी कांगड़ा को—ऑपरेटिव बैंक लि., प्रधान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र, पंखा रोड, जनकपुरी, निकट जनक सिनेमा, नई दिल्ली–110058, प्रतिभूत ऋणदाता बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.kangrabank.com पर

नीलामी का संचालन बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लिमिटेड (आवॅशन टाइगर) के माध्यम से किया जाएगा तथा विस्तत बोली/निविदा प्रपत्र. उक्त विक्रय के नियमों एवं शर्तों तथा बोली/निविदा जमा करने की प्रक्रिया के लिए वेबसाइट

सरफॉएसि अधिनियम एवं नियमावली 2002 की धारा 13 (8) एवं नियम 6 (2) के अनुसार सांविधिक सूचना

की तिथि से पूर्व पूर्णरूपेण ढंग से बकाया देयराशियों का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर उपरोक्त वर्णित चल प्रतिभृत परिसंपत्ति को उपरोक्त अंकित विक्रय / नीलामी तिथि पर बेच दिया जाएगा। यह प्रकाशन उपरोक्त नामित ऋणकर्ता एवं जमानतदार हेतु 30 दिवसीय सुचना भी है।

वान कार्यालय सी–29, सामुदायिक केंद्र पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 दरभाष सं: 9013568418, 9013568419



और नियम, 2002 के तहत) के तहत पर बेची जाएगी:

दिनांक: 31-01-2023

www.readwhere.com

स्थानः दिल्ली

[नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना भूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथ प्रितिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत नीचे उल्लिखित अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्वारा आम जनता और विशेष रूप से नीचे उल्लिखित कर्जदार, बंधककर्ता तथा आश्वस्ति को नोटिस दिया जाता है कि द कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुख्य कार्यालय : सी-29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058 के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जिसका सांकेतिक/रचनात्मक कब्जा प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, नीचे दिए गए संक्षिर विवरण के अनुसार ''जहां है जैसे है'', ''जो है यही है'' और ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर ई-नीलामी द्वारा बिक्री (सरफेसी अधिनियम

क्र. (क) कजेदार, सं. बंधककर्ता तथा आश्वस्ति का नाम (ख) शाखा नाम	(क) मांग सूचना की तिथि (ख) कब्जा का प्रकार∕तिथि (ग) मांग राशि	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	(क) जमा धरोहर राशि (ख) संविदा वृद्धि राशि (ग) निरीक्षण की तिथि एवं समय (घ) ईएमडी तथा केवाईसी जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय (ङ) ई-नीलामी की तिथि∕समय
पत्नी स्वर्गीय श्री रोशन लाल आरएन/18/549 (45361) ऋण खाता सं. 00048090000749, 00048160000061 (कर्जदार, जमानतदार और बंधककर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी) श्री अमन पुत्र स्वर्गीय श्री रोशन लाल (कर्जदार के कानूनी वारिस) (ख) रोहिणी शाखा		प्लॉट नंबर 109, (भूमि माप 100, वर्ग गज) और प्लॉट नंबर 110, (भूमि मापने 50 वर्ग गज) ब्लॉक-ए -1, कुल भूमि माप 150 वर्ग गज, खसरा नंबर 28/3 में से, गांव कंझावाला के क्षेत्र में स्थित, और आबादी महावीर विहार, दिल्ली -110081, सीमाएं : उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिणः रोड 15 फीट, पूर्वः आरपीएडी 20 फीट, पश्चिमः दूसरे का प्लॉट	रु. 42,00,000/- (रुपये बयालीस लाख मात्र)	(क) रु. 4,20,000/- (ख) रु. 20,000/- (ग) 15-02-2023 11.00 बजे पूर्वा. से 4.00 बजे अप (घ) 20-02-2023 5.30 बजे अप. तक (ङ) 22-02-2023, 3:00 बजे अप. से 5.00 बजे अप.

विस्तृत बोली/निविदा फॉर्म, उक्त बिक्री के नियम और शर्तों के लिए, कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर बैंक **दि कांगड़ा सहकारी बैंक लिमिटेड, प्रधान** कार्यालय : सी29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, जनक सिनेमा के पास, नई दिल्ली-110058 की वेबसाइट अर्थात www.kangrabank.com देखें यह नीलामी बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, और विस्तृत बोली/निविदा फॉर्म, उक्त बिक्री के नियम और शर्तों और बोली/निविदा जमा करने की प्रक्रिया के लिए, उनकी वेबसाइट https://sarfaesi.auctiontiger.ne पर उपलब्ध हैं।

सरफैसी अधिनियम, 2022 के नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के अनुसार सांविधिक सूचना इस नोटिस को इस बिक्री सूचना के समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से पूर्व पूरी तरह से बकाया भुगतान करने के लिए उक्त नामित कर्जदार तथा आश्वस्ति को नोटिस के रूप में भी माना जाए, ऐसा न करने पर संपत्ति को उपरोक्त बिक्री/नीलामी तिथि पर बेचा जाएगा। यह प्रकाशन उपरोक्त नामित कर्जदार औ आश्वस्ति को 30 दिन का नोटिस भी है।

> अधिकृत प्राधिकारी दि कांगडा सहकारी बैंक लिमिटेड प्रधान कार्यालय : सी -29, कम्युनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी, नई दिल्ली में फोन नं. 9013568418, 9013568419

मीनाक्षी वत्स

OSBI

भारतीय रटेट बैंक, तनावग्रस्त आरित प्रबंधन शाखा-। 12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉल्स्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली-110001, ई—मेलः sbi.04109@sbi.co.in

सरफासी एक्ट 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत सम्पत्ति का कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भृति हित अधिनियम 2002 के प्रवर्तन के अधीन, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत निम्नांकित कर्जदारों को निम्नलिखित दिनांकों को मांग नोटिस जारी किया था, जिसमें सूचना मे उल्लेखित बकाया राशि उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं, इसलिए एतदद्वारा कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा निम्नलिखित दिनांकों को ले लिया है।

एतदद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों, गारंटरों तथा जनसाधारण को उक्त सम्पत्ति(यों) के साथ लेन-देन न करने हेतु सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति(यों) के साथ कोई भी लेन देन **भारतीय** स्टेट **बैंक के प्रभार वास्ते निम्नलिखित राशि औ**र साथ में उस पर अप्रयोजित ब्याज और भविष्य का ब्याज संविदात्मक दर पर साथ में आकरिमक व्यय एवं प्रभार इत्यादि सहित के अधीन होगा। कर्जदारों का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

प्रियम पारा-पासु प्रमारित सम्पात जाकि सा-198, साईट-1, आधारिक	खाता / कर्जदार का नाम एवं पता	प्रोपराईटर / पार्टनर्स / गारंटर्स का नाम		कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि	
I MA MANUAL TO THE MANUAL TO T	कार्यालय नं. 1004,10वां तल, डीएलएफ जसोला टावर बी, प्लॉट नं. 11, डीडीए जिला केंद्र,	(गारंटर)	200 (2002) 2000 (2006)		रु. 80,17,23,024.37 (रु. अस्सी करोड सत्रह लाख तेईस हजार चौबीस और पैसे सैतीस मात्र) साथ में भविष्य का ब्याज और सभी आकिस्मक खर्चे, लागत, प्रभार इत्यादि सहित	

बैंक ऑफ़ बड़ोदा Bank of Baroda THENEY IND DENK

ROSARB (दक्षिणी दिल्ली) बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, द्वित्तीय तल, 16, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001, Email: sardel@bankofbaroda.com

अचल सम्पत्तियों के लिए बिक्री सूचना

अचल सम्पत्तियों के बिक्री के लिए बिक्री सूचना "ANNEXURE – B"

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के 🔳 नियम 6(2) एवं 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), बंधकदाता(ओं) तथा गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित निम्नवर्णित अचल

सम्पत्ति, जिसका कब्जा प्रत्याभूत लेनदार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, निम्नलिखित खाता / तों से बकाया राशि की वसूली के लिए **"जैसी है जहां है", जैसी है जो है"** तथा **"जो भी है वहां है"** आधार पर बेची जाएगी। कर्जदार/रों/बंधकदाता/गारंटर/रों/प्रतिभूत आस्ति/यों/बकाया राशि/सुरक्षित

-	मूल्य	u / ई—नीलामी की तिथि एवं समय, ईएमडी तथा बोली वृद्धि रशि का विवरण	नीचे वर्णितानुसार होगा :					CATH NAME	
	क्र स	कर्जदार और गारंटर्स का नाम एवं पता	अचल संपत्ति का विवरण ज्ञात भार के साथ, यदि कोई हो	कुल बकाया सरफेसी की धारा 13(2) के तहत जारी डिमांड नोटिस 30.08.2021 तक	VI-14	न्यूनतम बोली वृद्धि राशि धरोहर राशि न्यूनतम बोली वृद्धि राशि	स्थिति (रचनात्मक / भौतिक	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	
		मैसर्स एमएसएम नेटवर्क एंटरप्राइजेज (प्रोप श्री शंकर नाथ झा), 205, द्वित्तीय तल स्काईलार्क बिल्डिंग 60, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली —110019 प्रोप.— श्री शंकर नाथ झा पुत्र श्री सिच्चिदानंद झा, अपार्टमेंट नंबर 201, एस्पेन टॉवर, द्वित्तीय तल, ओमैक्स ''द फॉरेस्ट स्पा'' सेक्टर—43, बड़कल—सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद, हिरियाणा—121003 गारंटर: 1. श्री शंभु नाथ झा (गारंटर) पुत्र श्री सिच्चिदानंद झा, फ्लैट नंबर — 4ए, चतुर्थ तल, टॉवर —5, ओजोन पार्क अपार्टमेंट सेक्टर—86, फरीदाबाद हिरियाणा, 2. श्री श्वेता झा (गारंटर) पत्नी श्री शंभु नाथ झा, फ्लैट नंबर — 4ए, चतुर्थ तल, टावर—5, ओजोन पार्क अपार्टमेंट सेक्टर—86, फरीदाबाद हिरियाणा	मंजिल पर आवासीय फ्लैट संख्या 505, आशा दीप को—ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, जीएच–02, सेक्टर–21डी, फरीदाबाद, हरियाणा में श्री शंकर	+ ब्याज और अन्य शुल्क और उस पर खर्च	को	₹ 7,00,000/-	भौतिक कब्जा	04-03-2023 को पूर्वाह्व 11.00 बजे से अप्राह्व 04.00 बजे	

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.bankofbaroda.co.in/e-auction.html और https://ibapi.in देखें। इच्छुक बोलीदाता प्राधिकृत अधिकारी मोबाईल नं 9099924350 से सम्पर्क करें।

दिनांक : 03.02.2023, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

IndiGo

INTERGLOBE AVIATION LIMITED

CIN: L62100DL2004PLC129768

Registered Office: Upper Ground Floor, Thapar House, Gate No. 2, Western Wing, 124 Janpath, New Delhi - 110001, India Tel: +91 96500 98905; Fax: +91 11 4351 3200

E-mail: investors@goindigo.in; Website: www.goindigo.in

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS AND Unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 december 2022

(Rupees in millions, except for share data and if otherwise stated)

S.No.	Particulars			Conso	lidated			
	Visit Vinetanine Biology		Quarter ended	j	Nine Mon	ths ended	Year ended	
		31 December 2022	30 September 2022	31 December 2021	31 December 2022	31 December 2021	31 March 2022	
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	
1	Revenue from Operations	149,329.70	124,975.87	92,947.69	402,858.51	179,101.80	259,309.27	
2	Total Income	154,102.01	128,522.86	94,800.78	412,812.94	184,490.63	266,565.25	
3	Profit/ (Loss) for the period (before Tax and/or Exceptional items)	14,233.10	(15,832.81)	1,336.62	(12,242.14)	(44,761.73)	(61,536.84)	
4	Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	14,233.10	(15,832.81)	1,336.62	(12,242.14)	(44,761.73)	(61,536.84)	
5	Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	14,226.04	(15,833.34)	1,297.88	(12,249.91)	(44,800.47)	(61,618.45)	
6	Total Comprehensive Income / (loss) for the period [Comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (loss) (after tax)]	14,199.60	(15,802.02)	1,306.55	(12,167.53)	(44,812.73)	(61,607.80)	
7	Equity share capital (face value of Rs. 10 each, fully paid)	3,854.75	3,854.35	3,851.91	3,854.75	3,851.91	3,852.55	
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet						(63,733.17)	
9	Carnings Per Share (of Rs. 10/- each) (i) Basic (Rs.) (ii) Diluted (Rs.)	36.91 36.86	(41.09) (41.09)	3.37 3.36	(31.79) (31.79)	(116.35) (116.35)	(160.01) (160.01)	

The information on unaudited standalone financial results are given below:

(Rupees in millions, except for share data and if otherwise stated)

S.No.	Particulars	Standalone								
	10.4 No. 10.		Quarter ended	l .	Nine Mon	ths ended	Year ended			
		31 December 2022	30 September 2022	31 December 2021	31 December 2022	31 December 2021	31 March 2022			
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)			
1	Revenue from Operations	149,329.70	124,975.87	92,947.69	402,858.51	179,101.80	259,309.27			
2	Total Income	154,087.04	128,515.58	94,798.76	412,789.16	184,482.94	266,554.69			
3	Profit/ (loss) for the period (before Tax and/or Exceptional Items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)			
4	Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)			
5	Profit/ (loss) for the period after tax (after Exceptional items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)			
6	Total Comprehensive Income / (loss) for the period [Comprising Profit / (loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (loss) (after tax)]	14,160.97	(15,823.08)	1,292.59	(12,236.11)	(44,920.70)	(61,680.60)			
7	Equity share capital (face value of Rs. 10 each, fully paid)	3,854.75	3,854.35	3,851.91	3,854.75	3,851.91	3,852.55			
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet						(64,205.47)			
9	Carnings Per Share (of Rs. 10/- each) (i) Basic (Rs.) (ii) Diluted (Rs.)	36.79 36.74	(41.14) (41.14)	3.33 3.33	(31.99) (31.99)	(116.64) (116.64)	(160.25) (160.25)			

Notes:

Place: Gurugram

Date: 3 February 2023

- 1. The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results and unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "SEBI LODR Regulations"). The full format of the unaudited consolidated financial results and unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022 is available on the website of the Company www.goindigo.in and also at the website of the stock exchanges www.nseindia.com and www.bseindia.com. The results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company and its subsidiary (namely "Agile Airport Services Private Limited") [the Company and its subsidiary together referred to as, "the Group"] pursuant to Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations, who have issued an unmodified conclusion on the same.
- 2. The above results were reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 3 February 2023.
- 3. Earnings per share is not annualized for the quarter ended 31 December 2022, 30 September 2022 and 31 December 2021 and for the nine months ended 31 December 2022 and 31 December 2021.

for and on behalf of the Board of Directors of InterGlobe Aviation Limited

Rahul Bhatia

Managing Director



